



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 05.08.2022

थाना बाबरी

थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत सोहजनी-बाबरी मार्ग पर हुई लूट की घटना के संबंध में:-

ज्ञात हो कि दिनांक 02.08.2022 की रात्रि को वादी श्री हारुन पुत्र अख्तर नि वासी ग्राम सोहजनी जाटान थाना तितावी जनपद मु0नगर से अज्ञात 05 बदमाशों द्वारा सोहजनी-जाटान से बाबरी रोड पर कर्मवीर के बाग के पास से मोटरसाइकिल होण्डा शाईन न0- HR-76J-2037 को तमंचे के बल पर लूट कर ले जाने के सम्बन्ध थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दी गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 144/22 धारा 395 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कसाना थाना बाबरी द्वारा सम्पादित की जा रही थी। दौराने विवेचना वादी की पत्नी श्रीमती समीना पत्नी हारुन नि वासी सोहजनी जाटान थाना तितावी जनपद मु0नगर व हारुन के जीजा जावेद पुत्र जमील नि वासी कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली ने पूछताछ पर बताया की हारुन सत्यवीर पुत्र प्यारेलाल निवासी कस्बा खरखौदा जिला सोनीपत हरियाणा के साथ आर्डी भट्टा ग्रावड थाना बहादुरगढ पर मजदूरी का काम करता था। हारुन ने सत्यवीर से 60 हजार रुपये उधार ले रखे थे। हारुन रुपये देने के बजाय अपनी मोटरसाइकिल को सत्यवीर को देकर अपने घर आ गया था। सत्यवीर को रुपये न लौटाने की नीयत से हारुन ने अपनी मोटरसाइकिल होण्डा शाईन को 05 अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट करने के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर झूठा मुकदमा लिखाया गया था।

आज दिनांक 05.08.2022 को थाना बाबरी पुलिस द्वारा झूठी लूट में दिखाई गई मोटरसाइकिल को जावेद और समीना ने सत्यवीर के घर खरखौदा जिला सोनीपत से बरामद करायी है। जिसमें वादी हारुन के विरुद्ध लूट का झूठा मुकदमा लिखवाने व पुलिस अधिकारियों को गुमराह करने पर धारा 182 भादवि की कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी:-

1.होण्डा शाईन रंग काला न0- HR-76J-2037 (झूठे मुकदमें 144/22 धारा 395 भादवि से संबंधित मोटरसाइकिल)

पुलिस टीम:-

- 1.थानाध्यक्ष श्री विरेन्द्र कसाना थाना बाबरी जनपद शामली।
- 2.है0का0 कपिल मलिक एसओजी जनपद शामली।
- 3.का0 मयन कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।
- 4.का0 सुमित कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।



थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 03 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद:-

आज दिनांक 05.08.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सूचना पर 03 वाहन चोरों को चोरी की 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण से बरामदा मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया कि उक्त मोटरसाइकिल को मौहल्ला हकीमान कस्बा व थाना थानाभवन से चोरी की थी।

ज्ञात हो कि दिनांक 02.08.2022 को समय करीब दोपहर 1.30 बजे वादी श्री ईशु अरोड़ा पुत्र मनोहर लाल निवासी मौ0 हकीमान कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा वादी की मोटरसाइकिल होण्डा शाईन नम्बर-UP-19A-9556 को मौहल्ला हकीमान से किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 279/2022 धारा 279,411 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. नईम उर्फ सोनू पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला रैतीसराय कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।
2. सावेज पुत्र शमशाद निवासी मौहल्ला खैल कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।
3. वाजिद पुत्र मौ0 सईद निवासी मौहल्ला छत्ता बंगला कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. मु0अ0सं0 279/2022 धारा 279,411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर रंग काला बिना नम्बर ,चैसिस नं- MBLHA10A3EHF60425, इंजिन नं- HA10ELEHF28954 (संबंधित मु0अ0सं0 279/22 धारा 379,411 भादवि)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री ओमवीर सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।
2. का0 उदित कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।
3. का0 अमरपाल थाना थानाभवन जनपद शामली।
4. का0 आशीष थाना थानाभवन जनपद शामली।



थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की पिकअप गाड़ी व अवैध चाकू

बरामद:-

आज दिनांक 05.08.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान खुरगान बाईपास से 02 अभियुक्तों को चोरी की पिकअप गाड़ी, 02 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण से बरामद चोरी की पिकअप गाड़ी के संबंध में पूछताछ की गई तो बताया उक्त गाड़ी को जनपद मेरठ से चोरी की थी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.वसीम पुत्र अय्यूब निवासी इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
- 2.जुनेद पुत्र मतलूब निवासी अकबरपुर सुनहेटी थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.चोरी की पिकअप गाड़ी नम्बर-DL-1LAC-0502।
- 2.अवैध 02 चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री राजकमल थाना कैराना जनपद शामली।
- 2.का0 सुशील कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
- 3.का0 मोहित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 01 चाकू बरामद:-

आज दिनांक 05.08.2022 को थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त साकिर पुत्र दिलशाद निवासी इस्लामनगर थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके कब्जे से अवैध 01 चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कैराना पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 05.08.2022 को थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर 01 अभियुक्त अनित पुत्र स्व0 चरण सिंह निवासी ग्राम जन्धेडी थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जो मु0अ0सं0 409/22 धारा 452/354बी/354ग/147/506/504/323/342/376/511 में वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी के संबंध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 05.08.2022 को थाना कांधला पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त संजय पुत्र राजवीर निवासी ग्राम बिराल थाना बुढाना जनपद मु0नगर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जो मु0अ0सं0 240/1993 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वारण्टी था। अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।